



**खण्ड – I**  
**(सामान्य अध्ययन)**

1. राज्य सभा के सदस्य \_\_\_\_\_ की अवधि के लिए चुने जाते हैं।  
(a) 8 वर्ष (b) 7 वर्ष (c) 6 वर्ष (d) 5 वर्ष
  2. निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क-मताधिकार से सम्बन्धित है ?  
(a) अनुच्छेद 322 (b) अनुच्छेद 324 (c) अनुच्छेद 325 (d) अनुच्छेद 326
  3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किये जाने के मामले में जारी किया जाता है ?  
(a) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (b) परमादेश  
(c) प्रतिषेध (d) अधिकार-पृच्छा
  4. भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अन्तर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किये गये हैं ?  
(a) 18 विषय (b) 28 विषय (c) 19 विषय (d) 29 विषय
  5. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ?  
(a) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष (b) राज्य के राज्यपाल  
(c) भारत के राष्ट्रपति (d) राज्य के मुख्यमंत्री
  6. निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है ?  
(a) मौलिक अधिकार (b) मौलिक कर्तव्य  
(c) राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्त (d) संविधान की प्रस्तावना
  7. भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं ?  
(a) एक-चौथाई सदस्य (b) एक-तिहाई सदस्य  
(c) दो-तिहाई सदस्य (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
  8. पंचायती राज से सम्बन्धित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए :
    - (i) जी.वी.के. राव समिति
    - (ii) एल.एम. सिंघवी समिति
    - (iii) बलवन्त राय मेहता समिति
    - (iv) अशोक मेहता समिति

नीचे दिये गये कूटों में से सही उत्तर चुनिए :

  
    - (a) (ii), (iii), (i) एवं (iv) (b) (i), (iii), (iv) एवं (ii)
    - (c) (iii), (iv), (i) एवं (ii) (d) (iv), (iii), (ii) एवं (i)
9. निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है ?  
(a) अनुच्छेद 210 (b) अनुच्छेद 211 (c) अनुच्छेद 212 (d) अनुच्छेद 213
  10. निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया ?  
(a) 44वाँ संशोधन अधिनियम (b) 42वाँ संशोधन अधिनियम  
(c) 56वाँ संशोधन अधिनियम (d) 73वाँ संशोधन अधिनियम

- 11.** In Indian Constitution the ‘Rule of Law’ is incorporated by which of the following Articles ?  
(a) Article-13      (b) Article-14      (c) Article-15      (d) Article-16
- 12.** Which of the following Constitutional Amendments is associated with the lowering of voting age in India ?  
(a) 61<sup>st</sup> Amendment      (b) 51<sup>st</sup> Amendment  
(c) 41<sup>st</sup> Amendment      (d) 71<sup>st</sup> Amendment
- 13.** Where is the Desert Plantation and Research Centre located in India ?  
(a) Jaipur      (b) Kota      (c) Jhalawar      (d) Jodhpur
- 14.** Which of the following states is the largest producer of Mica in India ?  
(a) Andhra Pradesh      (b) Rajasthan  
(c) Bihar      (d) Jharkhand
- 15.** In which of the following years the ‘State Reorganisation Commission’ of India was established ?  
(a) 1953      (b) 1956      (c) 1957      (d) 1960
- 16.** Which one of the following is the first state in India to use Gross Environment Product in its Gross Domestic Product calculation ?  
(a) Himachal Pradesh      (b) Assam  
(c) Uttarakhand      (d) Kerala
- 17.** According to ‘India, State of Forests Report 2017’ released on 6<sup>th</sup> February, 2018, what percentage of total geographical area of the country is under forests ?  
(a) 18.32%      (b) 19.54%      (c) 21.54%      (d) 23.54%
- 18.** According to 2011 census, which of the following states of India does not have the Population of Scheduled Castes ?  
(a) Sikkim      (b) Nagaland      (c) Arunachal Pradesh (d) Goa
- 19.** In India, Population explosion is related to :  
(a) High birth-rate and low death-rate      (b) High birth-rate and high death-rate  
(c) Low birth-rate and high death-rate      (d) Low birth-rate and low death-rate
- 20.** What is the total length of sea coast-line of India ?  
(a) 7016.6 Km.      (b) 7516.6 Km.      (c) 7716.6 Km.      (d) 7216.6 Km.
- 21.** The largest coalfield of India is \_\_\_\_\_.  
(a) Raniganj      (b) Bokaro      (c) Jharia      (d) Giridih
- 22.** ‘The Inland Waterways Authority, India’ (IWAI) was constituted on 27<sup>th</sup> October, 1986 as a statutory body. Where is its Headquarters located ?  
(a) Noida      (b) Gurugram      (c) Udaipur      (d) Mumbai
- 23.** Who among the following was the first Chairman of the Backward Class Commission ?  
(a) Jagjiwan Ram      (b) Kakasaheb Kalekar  
(c) B.R. Ambedkar      (d) None of the above

- 11.** भारतीय संविधान में ‘विधि का शासन’ निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है ?  
 (a) अनुच्छेद 13      (b) अनुच्छेद 14      (c) अनुच्छेद 15      (d) अनुच्छेद 16
- 12.** निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से सम्बंधित है ?  
 (a) 61वाँ संशोधन      (b) 51वाँ संशोधन      (c) 41वाँ संशोधन      (d) 71वाँ संशोधन
- 13.** भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केन्द्र कहाँ स्थित है ?  
 (a) जयपुर      (b) कोटा      (c) झालावाड़      (d) जोधपुर
- 14.** भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है ?  
 (a) आनंद प्रदेश      (b) राजस्थान      (c) बिहार      (d) झारखण्ड
- 15.** निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के ‘राज्य पुनर्गठन आयोग’ की स्थापना की गई ?  
 (a) 1953      (b) 1956      (c) 1957      (d) 1960
- 16.** निम्न में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा ?  
 (a) हिमाचल प्रदेश      (b) असम      (c) उत्तराखण्ड      (d) केरल
- 17.** 6 फरवरी, 2018 को निर्गत ‘भारत में बनों की स्थिति रिपोर्ट 2017’ के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बनों के अन्तर्गत है ?  
 (a) 18.32 प्रतिशत      (b) 19.54 प्रतिशत      (c) 21.54 प्रतिशत      (d) 23.54 प्रतिशत
- 18.** 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है ?  
 (a) सिक्किम      (b) नागालैण्ड      (c) अरुणाचल प्रदेश      (d) गोवा
- 19.** भारत में जनसंख्या विस्फोट सम्बद्ध है :  
 (a) उच्च जन्म-दर तथा निम्न मृत्यु-दर से      (b) उच्च जन्म-दर तथा उच्च मृत्यु-दर से  
 (c) निम्न जन्म-दर तथा उच्च मृत्यु-दर से      (d) निम्न जन्म-दर तथा निम्न मृत्यु-दर से
- 20.** भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लम्बाई कितनी है ?  
 (a) 7016.6 कि.मी.      (b) 7516.6 कि.मी.  
 (c) 7716.6 कि.मी.      (d) 7216.6 कि.मी.
- 21.** भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है  
 (a) रानीगंज      (b) बोकारो      (c) झारिया      (d) गिरिडीह
- 22.** ‘अन्तः स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारत’ (IWAI) एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर, 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है ?  
 (a) नोयडा      (b) गुरुग्राम      (c) उदयपुर      (d) मुम्बई
- 23.** निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे ?  
 (a) जगजीवन राम      (b) काकासाहेब कालेलकर  
 (c) बी.आर. अम्बेडकर      (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

- 24.** Najla Bouden Ramdhane has been nominated as the first female Prime Minister of which country ?  
(a) Nigeria      (b) New Zealand      (c) Finland      (d) Tunisia
- 25.** Environment Organisation ‘Legal Initiative for Forest and Environment’ (LIFE) was conferred with which award ?  
(a) Greenpeace Award 2021      (b) Sustainable Goal Achiever Award 2021  
(c) Right Livelihood Award 2021      (d) Eco-Award 2021
- 26.** Which Indian State has launched a drone-based afforestation project, named ‘Hara Bhara’ ?  
(a) Telangana      (b) Gujarat      (c) Assam      (d) Punjab
- 27.** Where was the World Stamp Exhibition ‘Philanippon 2021’ held ?  
(a) China      (b) Japan      (c) Germany      (d) Taiwan
- 28.** What is India’s rank in Global Innovation Index 2021 launched by World Intellectual Property Organization ?  
(a) 38      (b) 29      (c) 46      (d) 52
- 29.** Which Indian State has topped the FSSAI’s 3<sup>rd</sup> State Food Safety Index ?  
(a) Karnataka      (b) Tamil Nadu      (c) Haryana      (d) Gujarat
- 30.** An online platform developed by IIT Madras to tackle e-waste is known as :  
(a) e-Source      (b) e-Bin      (c) e-Storage      (d) e-Recycle
- 31.** The FI – Index introduced by the Reserve Bank of India refers to  
(a) Financial Investment      (b) Financial Indication  
(c) Financial Inclusion      (d) Financial Innovation
- 32.** Which of the following became the first Indian City to achieve 100 percent COVID-19 vaccination target ?  
(a) Indore      (b) Pune      (c) Chandigarh      (d) Bhubaneshwar
- 33.** What is the name of a brand launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs for marketing of Self Help Group products ?  
(a) Son Chiraiya (b) Shudhdhara      (c) Atma Nidhi      (d) Swadeshi
- 34.** Environmental Impact Assessment (EIA), is a planning tool to integrate environmental concerns into the development process from the initial stage of Planning. When was it first used in India with river valley projects. etc. ?  
(a) in 1971      (b) in 1978      (c) in 1998      (d) in 1999

- 24.** नजला बॉडेन रमधाने (Najla Bouden Romdhane) किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई ?  
 (a) नाइजीरिया      (b) न्यूजीलैंड      (c) फिनलैंड      (d) ट्र्यूनीशिया
- 25.** पर्यावरण संस्था 'लीगल इनिशिएटिव फॉर फैरेस्ट एंड इन्वायरमेंट' (लाइफ) को किस अवार्ड से नवाजा गया है ?  
 (a) ग्रीनपीस अवार्ड 2021      (b) सस्टेनेबल गोल एचीवर अवार्ड 2021  
 (c) राइट लाइबलिहुड अवार्ड 2021      (d) ईको अवार्ड 2021
- 26.** किस भारतीय राज्य ने 'हरा भरा' नाम से ड्रोन आधारित बनरोपण परियोजना शुरू की है ?  
 (a) तेलंगाना      (b) गुजरात      (c) असम      (d) पंजाब
- 27.** विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिलनिप्पॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी ?  
 (a) चीन      (b) जापान      (c) जर्मनी      (d) ताइवान
- 28.** विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लान्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है ?  
 (a) 38      (b) 29      (c) 46      (d) 52
- 29.** FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है ?  
 (a) कर्नाटक      (b) तमिलनाडु      (c) हरियाणा      (d) गुजरात
- 30.** ई-वेस्ट से निपटने के लिए आई आई टी मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है  
 (a) ई-सोर्स      (b) ई-बिन      (c) ई-स्टोरेज      (d) ई-रिसाइक्ल
- 31.** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI-Index संबंधित है :  
 (a) फाइनेंशियल इंवेस्टमेंट से      (b) फाइनेंशियल इंडीकेशन से  
 (c) फाइनेंशियल इंक्लूजन से      (d) फाइनेंशियल इनोवेशन से
- 32.** निम्नलिखित में से कौन 100 प्रतिशत कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना ?  
 (a) इंदौर      (b) पुणे      (c) चंडीगढ़      (d) भुवनेश्वर
- 33.** स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है ?  
 (a) सोन चिरैया      (b) शुद्धधारा      (c) आत्मनिधि      (d) स्वदेशी
- 34.** पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) एक नियोजन यंत्र (साधन) है, जो नियोजन के प्रारम्भिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया ?  
 (a) 1971 में      (b) 1978 में      (c) 1998 में      (d) 1999 में

- 35.** Who has been appointed as the CEO of Broadcast Audience Research Council (BARC) after the resignation of Sunil Lulla ?  
(a) T.M. Bhasin (b) Nakul Chopra (c) Rahul Dev (d) Sunil Tandon
- 36.** Which organisation has launched an online portal ‘My e-Haat’ to empower artisans and to strengthen handicraft sector ?  
(a) Azim Premji Foundation (b) Infosys  
(c) Piramal Foundation (d) HCL Foundation
- 37.** Who has been appointed as the new Chairman of Microsoft in June 2021 ?  
(a) Satya Nadella (b) Steve Ballmer (c) Amy Hood (d) Sanjay Gupta
- 38.** In which state India’s largest floating solar power plant was setup ?  
(a) Maharashtra (b) Andhra Pradesh (c) Uttar Pradesh (d) Tamil Nadu
- 39.** Name the only personality from Uttarakhand who was conferred with the ‘BHARAT RATNA’.  
(a) Bhimsen Joshi (b) Govind Ballabh Pant  
(c) General B.C. Joshi (d) H.N. Bahuguna
- 40.** Tehri State merged with the Union of India in the year \_\_\_\_\_.  
(a) 1920 (b) 1932 (c) 1949 (d) 2000
- 41.** Which is longest river of Uttarakhand ?  
(a) Kosi (b) Kali (c) Bhagirathi (d) Saryu
- 42.** In which year was ‘Ramman’ declared a World Heritage ?  
(a) 2009 (b) 2011 (c) 2008 (d) 2012
- 43.** Who was the author of ‘Ganika Nataka’ ?  
(a) Mola Ram (b) Jwala Ram (c) Shiv Ram (d) Mangat Ram
- 44.** Avatar Singh Panwar is famous as a \_\_\_\_\_.  
(a) Poet (b) Sculptor (c) Political Leader (d) Folk singer
- 45.** On which date did Nagendra Saklani get martyred ?  
(a) 6<sup>th</sup> Sept., 1932 (b) 9<sup>th</sup> June, 1930 (c) 11<sup>th</sup> January, 1948 (d) 23<sup>rd</sup> April, 1930
- 46.** Which city has been named as the World’s safest city in Safe Cities Index 2021 released by Economist Intelligence Unit (EIU) ?  
(a) Sydney (b) Tokyo (c) Copenhagen (d) Helsinki

35. सुनील लुल्ला के इस्टीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडिएंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है ?
- (a) टी.एम. भसीन को (b) नकुल चोपड़ा को  
(c) राहुल देव को (d) सुनील टंडन को
36. कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल 'मार्ई ई-हाट' लॉन्च किया है ?
- (a) अञ्जीम प्रेमजी फाउंडेशन (b) इंफोसिस  
(c) पिरामल फाउंडेशन (d) एच सी एल फाउंडेशन
37. जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ?
- (a) सत्या नडेला (b) स्टीव बॉल्मर (c) एमी हुड (d) संजय गुप्ता
38. भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है ?
- (a) महाराष्ट्र (b) आंध्र प्रदेश (c) उत्तर प्रदेश (d) तमिलनाडु
39. 'भारत रत्न' से सम्मानित उत्तराखण्ड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए ।
- (a) भीमसेन जोशी (b) गोविन्दबल्लभ पंत (c) जनरल बी.सी. जोशी (d) एच.एन. बहुगुणा
40. 'टिहरी' रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष \_\_\_\_\_ में हुआ ।
- (a) 1920 (b) 1932 (c) 1949 (d) 2000
41. उत्तराखण्ड की सबसे लम्बी नदी कौन सी है ?
- (a) कोसी (b) काली (c) भागीरथी (d) सरयू
42. 'रम्माण' को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया ?
- (a) 2009 (b) 2011 (c) 2008 (d) 2012
43. 'गणिका नाटक' के लेखक कौन थे ?
- (a) मौलाराम (b) ज्वालाराम (c) शिवराम (d) मंगतराम
44. अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं एक \_\_\_\_\_ के रूप में ।
- (a) कवि (b) मूर्तिकार (c) राजनेता (d) लोकगायक
45. नागेन्द्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे ?
- (a) 6 सितम्बर, 1932 (b) 9 जून, 1930  
(c) 11 जनवरी, 1948 (d) 23 अप्रैल, 1930
46. इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है ?
- (a) सिडनी (b) टोकियो (c) कोपनहेगन (d) हेलसिंकी

- 47.** Who was the first jurist from Uttarakhand to serve as a Judge of the Supreme Court of India ?  
(a) Justice Sudhanshu Dhulia                                  (b) Justice Prafulla Chandra Pant  
(c) Justice M.M. Ghildiyal                                      (d) Justice V.K. Bisht
- 48.** Which river was given the status of a living creature for first time by the High Court of Uttarakhand ?  
(a) Yamuna    (b) Ganga    (c) Kali    (d) Pindar
- 49.** Copper coin related to which dynasty has been discovered at the excavated Yajna Vedika site at Purola ?  
(a) Katyuri    (b) Kushan    (c) Paurav Varman (d) Kuninda
- 50.** Which of the following is the oldest inscription found in Uttarakhand ?  
(a) Baijnath    (b) Palethi    (c) Kalsi    (d) Pandukeshwar
- 51.** Which district of Uttarakhand has the largest geographical area ?  
(a) Uttarkashi    (b) Chamoli     (c) Pithoragarh    (d) Dehradun
- 52.** Who was the director of the award winning film “Dev Bhoomi” ?  
(a) Goran Paskaljevic    (b) Bela Negi  
(c) Shalini Shah    (d) Tigmanshu Dhulia
- 53.** The number of blocks in Uttarakhand is \_\_\_\_\_.  
(a) 95    (b) 90     (c) 100    (d) 54
- 54.** Which one of the following sportspersons does not hail from Uttarakhand ?  
(a) Lalit Upadhyaya    (b) Jaspal Rana  
(c) Unmukta Chand     (d) Rishabh Pant
- 55.** Which one of the following wildlife sanctuaries is famous for conservation of snow-leopard ?  
(a) Sona Nadi Wildlife Sanctuary                                (b) Binsar Wildlife Sanctuary  
(c) Govind Wildlife Sanctuary                                        (d) Rajaji National Park
- 56.** In which year was Hailey National Park established ?  
(a) 1924    (b) 1930    (c) 1936    (d) 1951
- 57.** In which one of the following lakes human skeletons have been found ?  
(a) Dodital    (b) Roopkund    (c) Hemkund    (d) Naukuchiya Tal
- 58.** The ‘Van Raji’ tribals in Uttarakhand are found in which district ?  
(a) Champawat    (b) Pithoragarh    (c) Bageshwar    (d) Uttarkashi
- 59.** In which year was ‘Ramman’ a part of the Uttarakhand tableau at the Republic Day parade in New Delhi ?  
(a) 2016    (b) 2011    (c) 2008    (d) 2012

47. भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखण्ड के प्रथम न्यायविद कौन थे ?  
 (a) न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया                          (b) न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चन्द्र पंत  
 (c) न्यायमूर्ति एम.एम. घिल्डियाल                          (d) न्यायमूर्ति वी.के. बिष्ट
48. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है ?  
 (a) यमुना                          (b) गंगा                          (c) काली                          (d) पिण्डर
49. पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से सम्बन्धित ताँबे का सिंका प्राप्त हुआ है ?  
 (a) कत्यूरी                          (b) कुषाण                          (c) पौरव वर्मन                          (d) कुणिन्द
50. उत्तराखण्ड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है ?  
 (a) बैजनाथ                          (b) पलेठी                          (c) कालसी                          (d) पाण्डुकेश्वर
51. उत्तराखण्ड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है ?  
 (a) उत्तरकाशी                          (b) चमोली                          (c) पिथौरागढ़                          (d) देहरादून
52. पुरस्कृत फिल्म 'देवभूमि' का निर्देशन किसने किया था ?  
 (a) गोरान पैस्केलेविच                          (b) बेला नेगी  
 (c) शालिनी शाह                                  (d) तिग्मांशु धूलिया
53. उत्तराखण्ड में विकास खण्डों की संख्या \_\_\_\_\_ है।  
 (a) 95                          (b) 90                          (c) 100                          (d) 54
54. निम्नांकित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखण्ड से नहीं है ?  
 (a) ललित उपाध्याय                          (b) जसपाल राणा                          (c) उन्मुक्त चन्द्र                          (d) क्रष्ण पंत
55. निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेन्दुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है ?  
 (a) सोना नदी वन्यजीव विहार                          (b) बिनसर वन्यजीव विहार  
 (c) गोविन्द वन्यजीव विहार                                  (d) राजाजी राष्ट्रीय उद्यान
56. हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी ?  
 (a) 1924                          (b) 1930                          (c) 1936                          (d) 1951
57. निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गये हैं ?  
 (a) डोडी ताल                          (b) रूपकुण्ड                          (c) हेमकुण्ड                          (d) नौकुचिया ताल
58. उत्तराखण्ड में 'वन राजी' जनजाति किस जनपद में निवास करती है ?  
 (a) चम्पावत                          (b) पिथौरागढ़                          (c) बागेश्वर                          (d) उत्तरकाशी
59. 'रम्माण' किस वर्ष नयी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखण्ड की झाँकी का हिस्सा रही ?  
 (a) 2016                          (b) 2011                          (c) 2008                          (d) 2012

- 60.** Which is the longest glacier in Uttarakhand ?  
(a) Milam      (b) Satopanth      (c) Pindari      (d) Gangotri
- 61.** Where is the Nehru Institute of Mountaineering located ?  
(a) Dehradun      (b) Chamoli      (c) Uttarkashi      (d) Pithoragarh
- 62.** Who out of the following was the editor of ‘Purushartha’ ?  
(a) Badri Dutt Pande      (b) Girija Dutt Naithani  
(c) Sadananda Kukreti      (d) Devi Dutt Raturi
- 63.** Name the district of Uttarakhand where Kartik Swami temple is situated.  
(a) Uttarkashi      (b) Chamoli      (c) Rudraprayag      (d) Almora
- 64.** Name the author of the book ‘Holy Himalaya’.  
(a) Pati Ram      (b) E. Sherman Oakley  
(c) Sarla Behan      (d) Jim Corbett
- 65.** Who was the last Chand king of Kumaun ?  
(a) Mohan Chand (b) Mahendra Chand (c) Kalyan Chand (d) Pradyuman Chand
- 66.** Name the ruler of Garhwal who was known as ‘Adinath’.  
(a) Ajai Pal      (b) Sahaj Pal      (c) Man Pal      (d) Shyam Shah
- 67.** In which year Dehradun got connected with railway ?  
(a) 1910      (b) 1900      (c) 1890      (d) 1885
- 68.** Khatling glacier is the origin of which river ?  
(a) Mandakini      (b) Nandakini      (c) Bhilangana      (d) Pindar
- 69.** Who was the first poet of Khadi Boli from Uttarakhand ?  
(a) Sumitra Nandan Pant      (b) Pitamber Datt Barathwal  
(c) Lokratn Pant ‘Gumani’      (d) Chandra Kunwar Bartwal
- 70.** Shiv Prasad Dabral ‘Charan’ is known as a \_\_\_\_\_.  
(a) Politician      (b) Historian      (c) Painter      (d) Social worker
- 71.** Which one is the second highest mountain peak in Uttarakhand ?  
(a) Trishul      (b) Kamet      (c) Chaukhamba      (d) Panchachuli

- 60.** उत्तराखण्ड राज्य का सबसे लम्बा हिमनद कौन सा है ?  
(a) मिलम                          (b) सतोपंथ                          (c) पिण्डारी                          (d) गंगोत्री
- 61.** नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है ?  
(a) देहरादून                          (b) चमोली                                  (c) उत्तरकाशी                          (d) पिथौरागढ़
- 62.** निम्न में से कौन 'पुरुषार्थ' के सम्पादक थे ?  
(a) बद्री दत्त पाण्डे                          (b) गिरिजा दत्त नैथानी                          (c) सदानन्द कुकरेती                          (d) देवी दत्त रत्नाङ्की
- 63.** उत्तराखण्ड के उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मन्दिर स्थित है ।  
(a) उत्तरकाशी                                  (b) चमोली    (c) रुद्रप्रयाग    (d) अल्मोड़ा
- 64.** 'होली हिमालय' पुस्तक के लेखक का नाम बताइये ।  
(a) पाती राम                                  (b) ई. शर्मन ओकले                                  (c) सरला बहन    (d) जिम कॉर्बेट
- 65.** कुमाऊँ का अन्तिम चन्द राजा कौन था ?  
(a) मोहन चन्द                                  (b) महेन्द्र चन्द    (c) कल्याण चन्द    (d) प्रद्युम्न चन्द
- 66.** गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि 'आदिनाथ' के नाम से जाना जाता था ।  
(a) अजय पाल                                  (b) सहज पाल    (c) मान पाल    (d) श्याम शाह
- 67.** देहरादून किस वर्ष रेलमार्ग से जुड़ा ?  
(a) 1910    (b) 1900    (c) 1890    (d) 1885
- 68.** खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है ?  
(a) मंदाकिनी                                  (b) नन्दाकिनी    (c) भिलंगना    (d) पिण्डर
- 69.** उत्तराखण्ड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे ?  
(a) सुमित्रानन्दन पंत                                  (b) पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल  
(c) लोकरत्न पंत गुमानी                                  (d) चन्द्र कुँवर बर्तवाल
- 70.** शिव प्रसाद डबराल 'चारण' जाने जाते हैं एक \_\_\_\_\_ के रूप में ।  
(a) राजनेता                                  (b) इतिहासकार    (c) चित्रकार    (d) समाज सेवी
- 71.** उत्तराखण्ड में दूसरी सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन सी है ?  
(a) त्रिशूल    (b) कामेट    (c) चौखम्बा    (d) पंचचूली

- 72.** Which of the following animals have three hearts and blue blood ?  
 (a) Shark                  (b) Blue Whale                  (c) Elephant                  (d) Octopus
- 73.** The correct increasing order of elements present in stainless steel is :  
 (a) Chromium, carbon, iron                  (b) Carbon, chromium, iron  
 (c) Carbon, iron, chromium                  (d) None of these
- 74.** Laughing gas is :  
 (a) Nitrogen dioxide                  (b) Dinitrogen tetraoxide  
 (c) Carbon dioxide                  (d) Nitrous oxide
- 75.** Which of the following represents pressure ?  
 (a) Force / Density                  (b) Force / Area  
 (c) Force × Area                  (d) Force / Acceleration
- 76.** On which of the following does the resistance of a conductor depend ?  
 (a) Length                  (b) Area of cross section  
 (c) Nature of material                  (d) All of the above possibilities are correct.
- 77.** The most advanced order in Gymnosperms is :  
 (a) Cycadales                  (b) Coniferales                  (c) Gnetales                  (d) Taxales
- 78.** Seed develops from :  
 (a) Ovary                  (b) Embryo                  (c) Ovule                  (d) Embryo sac
- 79.** Bleeding disease in human is due to the deficiency of :  
 (a) Vitamin A                  (b) Vitamin D                  (c) Vitamin E                  (d) Vitamin K
- 80.** Pasteurization of milk is done at :  
 (a) 54° C for 30 minutes                  (b) 62.8° C for 30 minutes  
 (c) 72° C for 32 minutes                  (d) 100° C for 10 minutes
- 81.** In which stage of meiotic cell division chiasmata are formed ?  
 (a) Metaphase                  (b) Anaphase                  (c) Prophase                  (d) Telophase
- 82.** Nature of Immunoglobulins is :  
 (a) Protein                  (b) Lipid                  (c) Vitamins                  (d) Minerals
- 83.** Which of the following is primary memory ?  
 (a) RAM                  (b) Hard disk                  (c) CD                  (d) None of these
- 84.** Mucormycosis disease is caused by the :  
 (a) Fungus                  (b) Bacterium                  (c) Virus                  (d) Protozoan

72. इनमें से किस जन्तु में तीन हृदय व नीला रक्त होता है ?  
 (a) शार्क में      (b) ब्लू व्हेल में      (c) हाथी में      (d) ऑक्टोपस में
73. स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्त्वों का बढ़ता हुआ क्रम है  
 (a) क्रोमियम, कार्बन, आयरन      (b) कार्बन, क्रोमियम, आयरन  
 (c) कार्बन, आयरन, क्रोमियम      (d) इनमें से कोई नहीं
74. हँसाने वाली गैस है  
 (a) नाइट्रोजन डाईऑक्साइड      (b) डाईनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड  
 (c) कार्बन डाईऑक्साइड      (d) नाइट्रस ऑक्साइड
75. निम्न में से कौन सा दाब को निरूपित करता है ?  
 (a) बल/घनत्व      (b) बल/क्षेत्रफल      (c) बल × क्षेत्रफल      (d) बल/त्वरण
76. निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है ?  
 (a) लम्बाई      (b) क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल  
 (c) पदार्थ की प्रकृति      (d) उपरोक्त सभी संभावनाएँ सही हैं।
77. अनावृतबीजी का सबसे विकसित गण है  
 (a) साइकेडेल्स      (b) कोनीफरेल्स      (c) नीटेल्स      (d) टेक्सेल्स
78. बीज विकसित होता है  
 (a) अंडाशय से      (b) भ्रूण से      (c) बीजाण्ड से      (d) भ्रूणकोश से
79. मानवों में रक्त स्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है ?  
 (a) विटामिन ए से      (b) विटामिन डी से      (c) विटामिन ई से      (d) विटामिन के से
80. दुध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है  
 (a) 54 °C पर तीस मिनट्स के लिए      (b) 62.8 °C पर तीस मिनट्स के लिए  
 (c) 72 °C पर बत्तीस मिनट्स के लिए      (d) 100 °C पर दस मिनट्स के लिए
81. अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइसमेटा का निर्माण होता है ?  
 (a) मेटाफेज़      (b) एनाफेज़      (c) प्रोफेज़      (d) टीलोफेज़
82. इम्युनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति होती है  
 (a) प्रोटीन की      (b) लिपिड की      (c) विटामिन की      (d) खनिज पदार्थ की
83. निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है ?  
 (a) रैम      (b) हार्ड डिस्क      (c) सीडी      (d) इनमें से कोई नहीं
84. म्यूक्रमाईकोसिस रोग इसके द्वारा होता है  
 (a) कवक से      (b) जीवाणु से      (c) विषाणु से      (d) एककोषीय प्रजीव से





**Part – II**  
**(General Aptitude Test)**

- 101.** In a football tournament 10 teams are playing. Before final match each team has to play once, against each opponent. How many total match before final will be played ?  
 (a) 81                    (b) 45                    (c) 46                    (d) 90
- 102.** The sum of a number and four times of its reciprocal is equal to  $8\frac{1}{2}$ . What is/are the number(s) ?  
 (a)  $8, \frac{1}{2}$                     (b)  $\frac{1}{8}$                     (c)  $\frac{1}{2}$                     (d)  $-8, -\frac{1}{4}$
- 103.** Value of  $\frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4}}}}$  is :  
 (a)  $\frac{19}{43}$                     (b)  $\frac{21}{44}$                     (c)  $\frac{43}{19}$                     (d) None of these
- 104.** A can do a piece of work in 10 days. B can do the same work in 15 days. They worked together for 4 days and then they both left the work. C joins to finish the remaining work. If C alone can finish the work in 12 days, then how much time will he take to finish the remaining work ?  
 (a) 2 days                    (b) 3 days                    (c) 4 days                    (d) 6 days
- 105.** How much time will two trains, moving in opposite directions, take to cross each other if their speeds are 120 km/h and 100 km/h respectively, and they are 110 km apart ?  
 (a)  $\frac{1}{2}$  hr                    (b) more than  $\frac{1}{2}$  hr                    (c) less than  $\frac{1}{2}$  hr                    (d) None of these
- 106.** For a pie diagram which one is true ?  
 (a) 100% data is represented on it.  
 (b) total angle made on centre can be more or less than  $360^\circ$ .  
 (c) it can have a shape other than circle also.  
 (d) None of these
- 107.** Radius of a circle is increased by 10%. By what percentage, the side of the square of maximum size inscribed in this circle will increase ?  
 (a) 10%                    (b) 5%                    (c) 20%                    (d) None of these

**खण्ड – II**  
**(सामान्य बुद्धि परीक्षण)**

- 101.** एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही हैं। फाइनल मैच से पूर्व हर टीम को, अपनी हर प्रतिभागी टीम से एक मैच खेलना है। फाइनल मैच से पूर्व कितने मैच खेले जायेंगे ?
- (a) 81                    (b) 45                    (c) 46                    (d) 90
- 102.** एक संख्या व उसके व्युत्क्रम के 4 गुना का योग  $8\frac{1}{2}$  है। वह संख्या क्या है/है ?
- (a)  $8, \frac{1}{2}$                     (b)  $\frac{1}{8}$                     (c)  $\frac{1}{2}$                     (d)  $-8, -\frac{1}{4}$
- 103.**  $\frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4}}}}$  का मान है :
- (a)  $\frac{19}{43}$                     (b)  $\frac{21}{44}$                     (c)  $\frac{43}{19}$                     (d) इनमें से कोई नहीं
- 104.** किसी कार्य को A, 10 दिन में कर सकता है। B उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। 4 दिन दोनों साथ-साथ काम करते हैं और फिर दोनों कार्य छोड़ देते हैं। C बचे हुए कार्य को करने के लिए जुड़ता है। यदि C अकेले ही उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है तो वह शेष कार्य को कितने दिनों में सम्पन्न करेगा ?
- (a) 2 दिन                    (b) 3 दिन                    (c) 4 दिन                    (d) 6 दिन
- 105.** दो ट्रेनें जो कि विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी, यदि उनकी गति क्रमशः 120 किमी/घण्टा व 100 किमी/घण्टा है और वे एक दूसरे से 110 किमी की दूरी पर हैं ?
- (a)  $\frac{1}{2}$  घण्टा                    (b)  $\frac{1}{2}$  घण्टे से अधिक                    (c)  $\frac{1}{2}$  घण्टे से कम                    (d) इनमें से कोई नहीं
- 106.** एक पाई आरेख के लिए क्या सत्य है ?
- (a) इस पर 100% data प्रदर्शित होता है।  
 (b) केन्द्र पर निर्मित कुल कोण  $360^\circ$  से कम या अधिक हो सकता है।  
 (c) इसका आकार वृत्त के अतिरिक्त भी कुछ हो सकता है।  
 (d) इनमें से कोई नहीं।
- 107.** एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। इस वृत्त के अन्दर निर्मित अधिकतम आकार के वर्ग की भुजा कितने प्रतिशत बढ़ जायेगी ?
- (a) 10%                    (b) 5%                    (c) 20%                    (d) इनमें से कोई नहीं

- 108.** Mark the item that does not belong to the group :
- (a) Brazil      (b) China      (c) India      (d) Argentina
- 109.** What is the angle between the hands of a clock at 12:30 ?
- (a)  $180^\circ$       (b)  $165^\circ$       (c)  $175^\circ$       (d)  $195^\circ$
- 110.** Find the least number which, when divided by 4,5,6,7,8,9,10 individually leaves remainder 3.
- (a) 2543      (b) 2523      (c) 3523      (d) None of these
- 111.**  $(995)^2 + (99)^2$  is equal to :
- (a) 999826      (b) 999956      (c) 999116      (d) None of these
- 112.** Find out the next item in the following series :
- K, M, Q, S, \_\_\_\_\_
- (a) X      (b) V      (c) T      (d) W
- 113.** If 'MINIATURE' is written as '495912395' in a code language, then how will 'PRIVATE' be written in the same code language ?
- (a) 7919125      (b) 7914125      (c) 7194512      (d) 7994125
- 114.** In the adjoining figure area of the circle C is  $9\pi$ . Then the area of the square PQRS is given by
- 
- (a) 24      (b) 30      (c) 81      (d) 36
- 115.** Two taps A and B can fill a tank in 12 minutes and 18 minutes, respectively. They are turned on at the same time. If the tap A is turned off after 4 minutes, then how much time will tap B take to fill rest of the tank ?
- (a) 8 minutes      (b) 9 minutes      (c) 10 minutes      (d) 11 minutes
- 116.** Which of the following pairs represents the same fact ?
- (a)  $\phi, \{\phi\}$       (b)  $\phi, \{0\}$       (c)  $\phi, \{ \}$       (d)  $\{\phi\}, \{0\}$

**108.** उस मद को चिह्नित करो जो समूह से अलग है :

- (a) ब्राजील      (b) चीन      (c) भारत      (d) अर्जेंटीना

**109.** एक घड़ी में सुइयों के मध्य 12:30 पर क्या कोण होगा ?

- (a)  $180^\circ$       (b)  $165^\circ$       (c)  $175^\circ$       (d)  $195^\circ$

**110.** वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से अलग-अलग भाग देने पर शेषफल 3 आये ।

- (a) 2543      (b) 2523      (c) 3523      (d) इनमें से कोई नहीं

**111.**  $(995)^2 + (99)^2$  का मान है :

- (a) 999826      (b) 999956      (c) 999116      (d) इनमें से कोई नहीं

**112.** निम्नलिखित शृंखला में आगे आने वाले मद को ज्ञात करें :


K, M, Q, S, \_\_\_\_\_

- (a) X      (b) V      (c) T      (d) W

**113.** एक निश्चित कूट भाषा में ‘MINIATURE’ को ‘495912395’ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ‘PRIVATE’ को कैसे लिखा जा सकता है ?

- (a) 7919125      (b) 7914125      (c) 7194512      (d) 7994125

**114.** संलग्न चित्र में यदि वृत्त C का क्षेत्रफल  $9\pi$  है तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा ?



- (a) 24      (b) 30      (c) 81      (d) 36

**115.** दो नल A तथा B एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट व 18 मिनट में भर सकते हैं । दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया । यदि 4 मिनट के बाद नल A को बन्द कर दिया गया, तब शेष टंकी को भरने में नल B को कितना समय लगेगा ?

- (a) 8 मिनट      (b) 9 मिनट      (c) 10 मिनट      (d) 11 मिनट

**116.** निम्न में से कौन सा युग्म एक ही तथ्य को दर्शाता है ?

- (a)  $\phi, \{\phi\}$       (b)  $\phi, \{0\}$       (c)  $\phi, \{ \}$       (d)  $\{\phi\}, \{0\}$

117. Vandana drove her car 30 kms due North. Then she turned left and drove 40 kms. She then turned left again and drove yet another 30 kms. Again she turned left and drove her car 50 kms. How far is she now from her initial place ?

- (a) 10 kms (b) 50 kms (c) 30 kms (d) 20 kms

118. Pointing to a woman in a photograph, a man said, "her sister's father is the only son of my grandfather." How is the man related to woman in the photograph ?

- (a) Uncle (b) Father (c) Son (d) Brother

119. How many seven's (7's) immediately preceded by 6 but not immediately followed by 4, are there in the following series ?

74276436753578437672406743

- (a) 1 (b) 2 (c) 4 (d) 6

120. A + B means B is brother of A; A  $\times$  B means B is husband of A; A – B means A is mother of B and A  $\div$  B means A is father of B. Which of the following option indicates 'P' is grandmother-in-law of 'T' ?

- (a) Q – P + R  $\div$  T (b) P  $\times$  Q  $\div$  R – T  
(c) P  $\times$  Q  $\div$  R + T (d) P + Q  $\div$  R – T

121. If  $2^x = 3^y = 12^z$ . Then the value of  $\frac{1}{z} - \frac{1}{y}$  is :

- (a)  $\frac{2}{x}$  (b)  $\frac{1}{x}$  (c)  $-\frac{1}{x}$  (d)  $-\frac{2}{x}$


122. If  $a^{1/3} + b^{1/3} + c^{1/3} = 0$ , then the value of  $(a + b + c)^3$  is :

- (a) 3abc (b) 9abc (c) 27abc (d) None of these

123. LCM of  $\frac{14}{33}, \frac{42}{55}, \frac{21}{22}$  is :

- (a)  $\frac{42}{22}$  (b)  $\frac{42}{11}$  (c)  $\frac{21}{42}$  (d)  $\frac{11}{42}$

124. The missing number ? is :



- (a) 7 (b) 25 (c) 49 (d) 129

125. The ratio of ages of father and the son at present is 5:1. After 12 years the ratio will become 3:1. What is the sum of present ages of the father and the son ?

- (a) 76 yrs (b) 77 yrs (c) 74 yrs (d) 72 yrs

117. वन्दना अपनी कार से उत्तर दिशा में 30 किमी. सफर करती है। फिर वह बायें मुड़कर 40 कि.मी. जाती है। पुनः बायें मुड़ती है और 30 कि.मी. गाड़ी चलाती है। फिर बायें मुड़कर 50 कि.मी. का सफर कार द्वारा तय करती है। अब वह अपने आरम्भिक स्थान से कितनी दूरी पर है?
- (a) 10 कि.मी. (b) 50 कि.मी. (c) 30 कि.मी. (d) 20 कि.मी.
118. एक औरत के चित्र की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा, “उसकी बहन के पिता, मेरे दादाजी के अकेले सुपुत्र हैं”। व्यक्ति का चित्र वाली औरत से क्या सम्बन्ध है?
- (a) चाचा (b) पिता (c) पुत्र (d) भाई
119. नीचे लिखी शृंखला में कितने ऐसे 7 हैं जिनकी पूर्ववर्ती संख्या 6 है और अनुसरण करने वाली संख्या 4 नहीं है?
- 74276436753578437672406743
- (a) 1 (b) 2 (c) 4 (d) 6
120.  $A + B$  का अर्थ है कि  $B$ ,  $A$  का भाई है;  $A \times B$  का अर्थ है कि  $B$ ,  $A$  का पति है;  $A - B$  का अर्थ है कि  $B$  की माता  $A$  है और  $A \div B$  का अर्थ है कि  $B$  के पिता  $A$  है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प  $P$  को  $T$  की नानी इंगित करता है?
- (a)  $Q - P + R \div T$  (b)  $P \times Q \div R - T$   
 (c)  $P \times Q \div R + T$  (d)  $P + Q \div R - T$
121. यदि  $2^x = 3^y = 12^z$ , तब  $\frac{1}{z} - \frac{1}{y}$  का मान है:
- (a)  $\frac{2}{x}$  (b)  $\frac{1}{x}$  (c)  $-\frac{1}{x}$  (d)  $-\frac{2}{x}$
122. यदि  $a^{1/3} + b^{1/3} + c^{1/3} = 0$ , तब  $(a + b + c)^3$  का मान है:
- (a)  $3abc$  (b)  $9abc$  (c)  $27abc$  (d) इनमें से कोई नहीं
123.  $\frac{14}{33}, \frac{42}{55}, \frac{21}{22}$  का लघुत्तम समापवर्त्य है:
- (a)  $\frac{42}{22}$  (b)  $\frac{42}{11}$  (c)  $\frac{21}{42}$  (d)  $\frac{11}{42}$
124. लुप संख्या ‘?’ है:
- |    |     |   |
|----|-----|---|
|    | 5   |   |
| 16 | 109 | 2 |
|    | 6   |   |
- |    |    |    |
|----|----|----|
|    | 51 |    |
| 17 | ?  | 48 |
|    | 13 |    |
- (a) 7 (b) 25 (c) 49 (d) 129
125. वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:1 का है। 12 वर्षों के पश्चात यह अनुपात 3:1 का हो जायेगा। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है?
- (a) 76 वर्ष (b) 77 वर्ष (c) 74 वर्ष (d) 72 वर्ष

- 126.** A square is drawn by joining the mid points of the sides of a given square. A third square is drawn inside the second square in the same way and the process is continued indefinitely. If the side of the first square is 4 cm, the sum of the area of all the squares is :
- (a) 16 sq. cm      (b) 32 sq. cm      (c) 8 sq. cm      (d) 64 sq. cm

- 127.** Complete the following series :


0, 6, 24, 60, 120, 210, \_\_\_\_\_

- (a) 240      (b) 290      (c) 336      (d) 504

- 128.** Six people P,Q,R,S,T and U are sitting in a circular path who are facing centre. R is third from P in the right. Q is third from T in the left, U is between P and T and S is third from U in the left. The order of these 6 people in clockwise direction is :


- (a) SQRUTP      (b) TSRQUP      (c) SRTUPQ      (d) SQPUTR

- 129.** Number of triangles in the following figure is :



- (a) 8      (b) 10      (c) 12      (d) 11

- 130.** The diagram given below shows the number of students who got distinction in three different subjects out of 500 students. The percentage of students who got distinction in exactly two subjects is :



- (a) 8%      (b) 9%      (c) 10%      (d) 12%

- 131.** The sum of the following infinite series is :

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2 \times 2} + \frac{1}{3^3 \times 3} + \frac{1}{3^4 \times 4} + \dots \dots \infty$$

- (a)  $\log_e 6$       (b)  $\log_e 2 - \log_e 3$       (c)  $\log_e 3 - \log_e 2$       (d)  $-\log_e 6$

126. एक दिये गये वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए एक वर्ग खींचा जाता है। इसी प्रकार तीसरा वर्ग, दूसरे वर्ग के अन्दर खींचा जाता है और यही प्रक्रिया अनिश्चित चलती है। यदि प्रथम वर्ग की भुजा 4 cm है तो समस्त वर्गों के क्षेत्रफल का योग होगा :

- (a) 16 वर्ग सेमी.    (b) 32 वर्ग सेमी.    (c) 8 वर्ग सेमी.    (d) 64 वर्ग सेमी.

127. निम्नलिखित शृंखला को पूर्ण कीजिए :


0, 6, 24, 60, 120, 210, \_\_\_\_\_

- (a) 240    (b) 290    (c) 336    (d) 504

128. 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T एवं U एक वृत्ताकार मार्ग में केन्द्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। R, P के दाहिने से तीसरा है। Q, T के बायें से तीसरा है। U, P तथा T के मध्य हैं एवं S, U के बायें से तीसरा है, तो घड़ी की सूई की दिशा में इन 6 व्यक्तियों का क्रम है :


- (a) SQRUTP    (b) TSRQUP    (c) SRTUPQ    (d) SQPUTR

129. निम्नलिखित चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या है :



- (a) 8    (b) 10    (c) 12    (d) 11

130. नीचे दिया गया चित्र 500 छात्रों में से उन छात्रों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने तीन विभिन्न विषयों में विशिष्टता प्राप्त की है। ठीक दो विषयों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत है :



- (a) 8%    (b) 9%    (c) 10%    (d) 12%

131. निम्नलिखित अनन्त श्रेणी का योग है :


$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2 \times 2} + \frac{1}{3^3 \times 3} + \frac{1}{3^4 \times 4} + \dots \dots \infty$$

- (a)  $\log_e 6$     (b)  $\log_e 2 - \log_e 3$     (c)  $\log_e 3 - \log_e 2$     (d)  $-\log_e 6$

**132.** If a man takes 2 hrs either to row 7 km upstream or 15 km downstream, the speed of the current in (kmph) is :

- (a) 1                          (b) 2                          (c) 3                          (d) 4

**133.** How many extra lines are needed to join all the distinct pairs of letters of the given figure ?



- (a) 40                          (b) 25                          (c) 24                          (d) 20

**134.** The odd number pair in the following options is :

- (a) 26, 4                          (b) 226, 14                          (c) 274, 16                          (d) 82, 8

**135.** If the 25<sup>th</sup> of August in a year is Thursday, the number of Mondays in that month is :

- (a) 4                                  (b) 5                                  (c) 6                                  (d) None of these

**136.** In an examination, a student scores 4 marks for every correct answer and loses 1 mark for every wrong answer. If he attempts all 60 questions and secures 130 marks, the number of questions he attempts correctly, is :

- (a) 38                                  (b) 40                                  (c) 42                                  (d) 45

**137.** Find the term which does not fit into the series :

1CV, 5FU, 9IT, 15LS, 17OR

- (a) 9IT                                  (b) 15LS                                  (c) 17OR                                  (d) 5FU

**138.** How many numbers from 1 to 100 are there each of which is not only exactly divisible by 4 but also has 4 as its digit ?

- (a) 7    (b) 8    (c) 18    (d) 25

**139.** If  $x < y$  and  $x < z$ , which of the following statements are always true ? Assume  $x \geq 0$  :

I :  $y < z$

II :  $x < yz$


III :  $2x < y + z$

- (a) Only I                                  (b) Only II                                  (c) Only III                                  (d) II and III

132. एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 7 किमी जाने में अथवा धारा के साथ 15 किमी जाने में 2 घंटे लगता है, तो धारा की गति (किमी/घंटा) में है :

- (a) 1                          (b) 2                          (c) 3                          (d) 4

133. दिये गये चित्र में विभिन्न अक्षर युग्मों को आपस में जोड़ने के लिए कितनी अतिरिक्त रेखाओं की आवश्यकता है ?



- (a) 40                          (b) 25                          (c) 24                          (d) 20

134. निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न आंकिक युग्म है :

- (a) 26, 4                          (b) 226, 14                          (c) 274, 16                          (d) 82, 8

135. यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस माह में सोमवार के दिनों की संख्या है :

- (a) 4                                  (b) 5                                  (c) 6                                  (d) इनमें से कोई नहीं

136. एक परीक्षा में, एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक खोता है। यदि वह सभी 60 प्रश्न हल करता है और 130 अंक पाता है, तो उसके द्वारा सही हल किए गये प्रश्नों की संख्या है :

- (a) 38                                  (b) 40                                  (c) 42                                  (d) 45

137. वह पद ज्ञात कीजिए जो शृंखला में उपयुक्त नहीं है :

1CV, 5FU, 9IT, 15LS, 17OR

- (a) 9IT                                  (b) 15LS                                  (c) 17OR                                  (d) 5FU

138. 1 से 100 तक कितनी संख्यायें ऐसी हैं जो न केवल 4 से पूर्ण विभाजित होती हैं बल्कि 4 उनका एक अंक भी है ?

- (a) 7    (b) 8    (c) 18    (d) 25

139. यदि  $x < y$  एवं  $x < z$ , तो निम्न में से कौन सा कथन हमेशा सत्य है ? माना  $x \geq 0$  :

I :  $y < z$

II :  $x < yz$

III :  $2x < y + z$

- (a) केवल I                                  (b) केवल II                                  (c) केवल III                                  (d) II एवं III

- 140.** Find odd one out from the following alternatives :
- (a) Mridang      (b) Veena      (c) Sitar      (d) Sarangi
- 141.** Vani is 14<sup>th</sup> from the right end in a row of 40 girls. What is her position from the left end ?
- (a) 24      (b) 25      (c) 26      (d) 27
- 142.** For a distribution the mode is 28 and the median is 30. Then the probable value of Arithmetic mean is :
- (a) 31      (b) 36      (c) 30      (d) 58
- 143.** The mid-values of the continuous class intervals of equal length of a distribution are 25, 34, 43, 52, 61, 70. Then the first class interval of the distribution is :
- (a) 24.5 – 34.5      (b) 25 – 34      (c) 20 – 30      (d) 20.5 – 29.5
- 144.** There are 5 different roads connecting Hardwar and Delhi. In how many ways can a person go from Hardwar to Delhi and return if he has to go by one road and return by a different road ?
- (a) 20      (b) 09      (c) 10      (d) 07
- 145.** Three coins are tossed simultaneously. What is the probability that there will be exactly two heads ?
- (a)  $\frac{1}{8}$       (b)  $\frac{2}{8}$       (c)  $\frac{3}{8}$       (d)  $\frac{5}{8}$
- 146.** A doctor gave to a patient 6 tablets and instructed him to take one tablet every 4 hours. If the patient takes first tablet at 4 PM, when would he take the last ?
- (a) 12 Midnight      (b) 12 Noon      (c) 4 AM      (d) 4 PM
- 147.** If the English alphabets are written in the reverse order and every alternate letter starting with Y is dropped, which letter will be exactly in the middle in the remaining alphabets ?
- (a) O      (b) M      (c) N      (d) P
- 148.** Which of the following will have the same mirror image ?
- (a) AXNXA      (b) CLOLC      (c) AOMDE      (d) AMUMA
- 149.** Complete the following series, choosing the correct alternative :
- aba\_ba\_b\_bba
- (a) aaa      (b) aab      (c) bab      (d) baa
- 150.** If A means '+', B means '−', C means '×' and D means '÷', then the value of 16A14C6D3B6 is :
- (a) 108      (b) 42      (c) 38      (d) 25

**140.** निम्नलिखित विकल्पों में से विजातीय विकल्प बताइए :

- (a) मृदंग                      (b) बीणा                      (c) सितार                      (d) सारंगी

**141.** 40 लड़कियों की एक पंक्ति में दायरीं ओर से वाणी 14वें स्थान पर है, उसका स्थान बायरीं ओर से क्या है ?

- (a) 24                              (b) 25                              (c) 26                              (d) 27

**142.** एक बंटन का बहुलक 28 तथा माध्यिका 30 है, तो समान्तर माध्य का संभव मान है :

- (a) 31                              (b) 36                              (c) 30                              (d) 58

**143.** किसी बंटन के समान लम्बाई के सतत् वर्ग अंतरालों के मध्य मान 25, 34, 43, 52, 61, 70 हैं। तब बंटन का प्रथम वर्ग अन्तराल है

- (a) 24.5 – 34.5                      (b) 25 – 34                              (c) 20 – 30                              (d) 20.5 – 29.5

**144.** हरिद्वार से दिल्ली जाने के लिए 5 अलग-अलग सड़कें हैं। एक व्यक्ति कितने प्रकार से हरिद्वार से दिल्ली जाकर वापस आ सकता है जबकि उसे किसी एक रास्ते से जाना हो और अन्य रास्ते से लौटना हो ?

- (a) 20                                      (b) 09                                      (c) 10                                      (d) 07

**145.** तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि ठीक दो बार चित आयेगा ?

- (a)  $\frac{1}{8}$                                       (b)  $\frac{2}{8}$     (c)  $\frac{3}{8}$     (d)  $\frac{5}{8}$

**146.** एक डॉक्टर मरीज को 6 गोली देता है तथा प्रति 4 घण्टे बाद एक गोली लेने को कहता है। यदि मरीज पहली गोली 4 बजे साँच को लेता है तो अन्तिम गोली कब लेगा ?

- (a) 12 रात्रि                              (b) 12 दोपहर                              (c) 4 A.M.                                      (d) 4 P.M.

**147.** यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उलटे क्रम से लिखा जाय व Y से प्रारम्भ होने वाले हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बचे हुए अक्षरों में से कौन सा अक्षर बीचो-बीच होगा ?

- (a) O    (b) M    (c) N    (d) P

**148.** निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दर्पण में भी समान दिखाई देगा ?

- (a) AXNXA                                      (b) CLOLC                                      (c) AOMDE                                      (d) AMUMA

**149.** उचित विकल्प चयनित कर, दी गई श्रेणी को पूरा कीजिए :

aba \_ ba \_ b \_ bba

- (a) aaa    (b) aab    (c) bab    (d) baa

**150.** यदि A का अर्थ ‘+’, B का अर्थ ‘-’, C का अर्थ ‘×’ एवं D का अर्थ ‘÷’ है, तो 16A14C6D3B6 का मान होगा :

- (a) 108    (b) 42    (c) 38    (d) 25